

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 331 ]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 29 जुलाई 2024 — श्रावण 7, शक 1946

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2024

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-78/2024/18.— छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत मानाकैम्प, जिला रायपुर के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :-

- नगर पंचायत मानाकैम्प को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है ।
- यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

### अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	डॉ भीमराव अम्बेडकर वार्ड
2	महात्मा गाँधी वार्ड
3	काली माता वार्ड
4	श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड
5	रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड
6	शहीद भगत सिंह वार्ड
7	राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त वार्ड
8	स्वामी विवेकानंद वार्ड
9	शिव शीतला वार्ड
10	नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड
11	शरद चंद्र चट्टोपाध्याय वार्ड
12	पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
13	शीतला माता वार्ड
14	मदर टेरेसा वार्ड
15	राधा कृष्ण वार्ड

## मानाकैम्प नगर पंचायत के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

## वार्ड क्रमांक-01,डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड

उत्तर	:-	वी.आई.पी. रोड नहर से पी.टी.एस. चौक तक ।
पूर्व	:-	पी.टी.एस. चौक से पी.टी.एस. कॉलोनी तक ।
दक्षिण	:-	पी.टी.एस. कॉलोनी से साईं मंदिर तक ।
पश्चिम	:-	साईं मंदिर से वी.आई.पी. रोड नहर तक ।

## वार्ड क्रमांक-02,महात्मा गान्धी वार्ड

उत्तर	:-	मीना भवन के पीछे से छोटा नहर तक ।
पूर्व	:-	छोटा नहर से सुमीत सायकल स्टोर्स तक ।
दक्षिण	:-	सुमीत सायकल स्टोर्स से किशोर विश्वास के घर तक ।
पश्चिम	:-	किशोर विश्वास से मीना भवन के पीछे तक ।

## वार्ड क्रमांक-03,काली माता वार्ड

उत्तर	:-	शिबु रंजन पाल के घर से सुमित सायकल स्टोर तक ।
पूर्व	:-	सुमीत सायकल स्टोर से पाल बूट हाउस तक ।
दक्षिण	:-	पाल बूट हाउस से तपन दत्ता के घर तक ।
पश्चिम	:-	तपन दत्ता के घर से शिबु रंजन पाल के घर तक ।

## वार्ड क्रमांक-04,श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड

उत्तर	:-	गोकुल मिस्त्री के घर से कृष्णा मंडल के घर तक ।
पूर्व	:-	कृष्णा मंडल के घर से अटल परिसर स्थित दुकान तक ।
दक्षिण	:-	अटल परिसर स्थित दुकान से कमलेश के घर तक ।
पश्चिम	:-	कमलेश के घर से गोकुल मिस्त्री के घर तक ।

## वार्ड क्रमांक-05,रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड

उत्तर	:-	मंजू राहा के घर से शंकर सिंह के मकान तक ।
पूर्व	:-	शंकर सिंह के मकान से बी.एस.एन.एल. मैदान तक ।
दक्षिण	:-	बी.एस.एन.एल. मैदान से नहर पुलिया तक ।
पश्चिम	:-	नहर पुलिया से मंजू राहा के घर तक ।

## वार्ड क्रमांक-06, शहीद भगत सिंह वार्ड

उत्तर	:-	माखन गोप के घर से हाई स्कूल रोड तक ।
पूर्व	:-	हाई स्कूल से चौथी बटालियन के स्टाफ क्वार्टर तक ।
दक्षिण	:-	चौथी बटालियन के स्टाफ क्वार्टर से नहर पुलिया तक ।
पश्चिम	:-	नहर पुलिया से माखन गोप के घर तक ।

## वार्ड क्रमांक-07,राष्ट्र कवि मैथिलीषरण गुप्त वार्ड

उत्तर	:-	सीमा किराना स्टोर से साहा किराना दुकान तक ।
पूर्व	:-	साहा किराना दुकान से फिलिप्स के घर तक ।
दक्षिण	:-	फिलिप्स के घर से अग्रवाल स्कूल तक ।
पश्चिम	:-	अग्रवाल स्कूल से निवास से सीमा किराना दुकान तक ।

## वार्ड क्रमांक-08,स्वामी विवेकानंद वार्ड

उत्तर	:-	पोस्ट ऑफिस से पानी टंकी तक ।
पूर्व	:-	पानी टंकी से नवोदय स्टॉफ क्वार्टर तक ।

दक्षिण	:-	नवोदय विद्यालय स्टॉफ क्वार्टर से रानी हॉटल तक।
पश्चिम	:-	रानी हॉटल से पोस्ट ऑफिस तक।

## वार्ड क्रमांक-09, शिव शितला वार्ड

उत्तर	:-	नवोदय विद्यालय बाउंड्री से योगेन्द्र मंडल के घर तक।
पूर्व	:-	योगेन्द्र मंडल के घर से मेन रोड नवोदय विद्यालय तक।
दक्षिण	:-	नवोदय विद्यालय बाउंड्री से विवेकानंद क्लब तक।
पश्चिम	:-	विवेकानंद क्लब से नवोदय विद्यालय बाउंड्री तक।

## वार्ड क्रमांक-10, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस वार्ड

उत्तर	:-	गोविंद साहा के घर से शिशु हालदार के घर तक।
पूर्व	:-	शिशु हालदार के घर से डे ब्रदर्स के दुकान तक।
दक्षिण	:-	डे ब्रदर्स के दुकान से दुर्गा मंदिर तक।
पश्चिम	:-	दुर्गा मंदिर से गोविंद साहा के घर तक।

## वार्ड क्रमांक-11, शरद चन्द्र चट्टोपाध्याय वार्ड

उत्तर	:-	एस.बी.आई. से तिवारी के मकान तक।
पूर्व	:-	तिवारी के मकान से छोटा नहर तक।
दक्षिण	:-	छोटा नहर से बडकू कोसले के घर तक।
पश्चिम	:-	बडकू कोसले के घर से एस.बी.आई. तक।

## वार्ड क्रमांक-12, पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

उत्तर	:-	बाल गृह से चौथी बटालियन तक।
पूर्व	:-	चौथी बटालियन से गोलक टिकेदार के घर तक।
दक्षिण	:-	गोलक टिकेदार के घर से गोपाल बनिक के घर तक।
पश्चिम	:-	गोपाल बनिक के घर से बाल गृह तक।

## वार्ड क्रमांक-13, शीतला माता वार्ड

उत्तर	:-	निमाई मंडल से सुमति मंडल के घर तक।
पूर्व	:-	सुमति के घर से द्रोपती एस.ओ.एस. कैम्पस तक।
दक्षिण	:-	एस.ओ.एस. कैम्पस से सुचित्रा बडई के घर तक।
पश्चिम	:-	सुचित्रा बडई के घर से निमाई मंडल के घर तक।

## वार्ड क्रमांक-14, मदर टेरेसा वार्ड

उत्तर	:-	पुलिस ट्रेनिंग सेन्टर के बाजू से सन एंड सन फार्म हाऊस तक।
पूर्व	:-	सन एंड सन फार्म हाऊस से शमशान घाट तक।
दक्षिण	:-	शमशान घाट से निमाई मंडल के घर तक।
पश्चिम	:-	निमाई मंडल के घर से पुलिस ट्रेनिंग सेन्टर के बाजू तक।

## वार्ड क्रमांक-15, राधा कृष्ण वार्ड

उत्तर	:-	गोपाल मंडल के घर से प्रदीप मंडल के घर तक।
पूर्व	:-	प्रदीप मंडल के घर से महानंद चौधरी के घर तक।
दक्षिण	:-	महानंद चौधरी के घर से सुनिता अधिकारी के घर तक।
पश्चिम	:-	सुनिता अधिकारी के घर से गोपाल मंडल के घर तक।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2024

क्रमांक एफ 1-78/2024/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-78/2024/18 दिनांक 29-07-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 29th July 2024

## NOTIFICATION

No. F 1-78/2024/18.— In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat Manacamp, Distt. Raipur as per schedule given Below :-

1. Divides Nagar Panchayat Manacamp into 15 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

## SCHEDULE

S. No. of ward	Name of the ward
1	Dr. Bhimrao Ambedkar ward
2	Mahatama Gandhi ward
3	Kalimata ward
4	Shyama Prasad Mukharji ward
5	Ravindra Nath Tagore ward
6	Shahid Bhagat Singh ward
7	Rashtra Kavi Maithalisharan Gupta ward
8	Swami Vivekanand ward
9	Shiv Shitla ward
10	Netaji Subhash Chandra Bose ward
11	Sharad Chandra Chattopadhyay ward
12	Pt. Dindayal Upadhyay ward
13	Shitla Mata ward
14	Mother Teresa ward
15	Radha Krishna ward

## Details of Chaturseema of wards of Manacamp Nagar Panchayat

## ward No 01 Dr. Bhimrao Ambedkar Ward

North From VIP Road Canal to PTS Chowk  
 East From PTS Chowk to PTS Colony  
 South From PTS Colony to Sai Tempal  
 West From Sai Tempal To VIP Road Canal

## ward No 02 Mahatama Gandhi Ward.

North From Behind of Mina Bhawan to Small Canal  
 East From Small Canal to Sumeet Cycle Store  
 South From Sumeet Cycle Store to Kishore Biswas's House  
 West From Kishore Biswas House to Behind of Mina Bhawan

## ward No 03 Kalimata Ward.

North	From Shibu Ranjan Pal House to Sumeet Cycle Store
East	From Sumeet Cycle Store to Pal Boot House
South	From Pal Boot House to Tapan Dutta House
West	From Tapan Dutta House to Shibu Ranjan Pal House

## ward No 04 Shyama Prasad Mukharji Ward.

North	Form Gokul Mishtri House to Krishna Mandal's House
East	From Krishna Mandal's House to Atal Parisar shop
South	From Atal Parisar shop to Kamlesh House
West	From Kamlesh House to Gokul Mishtri House

## ward No 05 Ravindra Nath Tagore Ward

North	From Manju Raha House to Shankar Sinh House
East	From Shankar Sinh House to B.S.N.L. Field
South	From B.S.N.L. Field To Canal Culvert
West	From Canal Culvert To Manju Raha House

## ward No 06 Shahid Bhagat Singh Ward

North	From Makhan Gop House To High school Road
East	From High School to 4th Battallion Staff Quarter
South	From 4th Battalion Staff Quarter to Canal Culvert
West	From Canal Culvert to Makhan Gop House

## ward No 07 Rashtra kavi Maithalisharan Gupta Ward

North	From Seema Kirana store to Saha Kirana Store
East	From Saha Kirana Store to Philipas House
South	From Philipas House to Agrawal School
West	From Agrawal School to Seema Kirana store

## ward No 08 Swami Vivekanand Ward

North	From Post Office to Pani Tanki
East	From Pani Tanki to Navoday Staff Quarter
South	From Navoday Vidyalay to Rani Hotel
West	From Rani Hotel to Post Office

## ward No 09 Shiv Shitla Ward

North	From Navoday Vidyalay Boundary to Yogendra Mandal's House
East	From Yogendra Mandal's House to Main Road Navoday Vidyalay
South	From Navoday Vidyalay Boundary to Vivekanand Club
West	From Vivekanand Club to Navoday Vidyalay Boundary

## ward No 10 Netaji Subhash Chandra Bose Ward

North	From Govind saha's House to Shishu Haldar's House
-------	---

East	From Shishu Haldar's House to Dey Brothers Shop
South	From Dey Brothers Shop to Durga mandir
West	From Durga mandir to Govind saha's House

## ward No 11 Sharad Chandra Chattopadhyay Ward

North	From SBI To Tiwari House
East	From Tiwari House to Small Canal
South	From Small Canal To Badku Kosle House
West	From Badku Kosle House to SBI

## ward No 12 Pt. Dindayal Upadhyay Ward

North	From Children's Home to 4th Battalion
East	From 4th Battalion to Golak Tikedar's House
South	From Golak Tikedar's House to Gopal Banik's House
West	From Gopal Banik's House to Children's Home

## ward No 13 Shitla Mata Ward

North	From Nimai Mandal to Sumati Mandal's House
East	From Sumati Mandal's House to Dropadi SOS campus
South	From SOS campus to Suchitra Badai's House
West	From Suchitra Badai's House to Nimai Mandal's House

## ward No 14 Mother Teresa Ward

North	Besides Police Training center to Son & Son Farm House
East	From Son & Son Farm House to Shamshan Ghat
South	Form Shamshan Ghat to Nimai Mandal's House
West	From Nimai Mandal's House to By The Side Of Police Training center

## ward No 15 Radha Krishna Ward

North	From Gopal Mandal house to Pradeep Mandal's House
East	From Pradeep Mandal House to Mahanand Chaudhari House
South	From Mahanand Chaudhari House to Sunita Adhikari's House
West	From Sunita Adhikari's House to Gopal Mandal House

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
RENUKA SHRIVASTAVA, Joint Secretary.